

**मेरे दोस्त का हिन्दुस्तान सफ़र**

राहुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तकरीबन एक ही उम्र के हैं। अपना खाली समय हमेशा एकसाथ गुज़ारते हैं। राहुल के पिता सरकारी कर्मचारी हैं। पेरिस में भारतीय दूतावास में काम करते हैं। राहुल की मां आफिस नहीं जाती। घर में रहकर अपने परिवार का ख़्याल रखती है। राहुल का बड़ा भाई युनिवर्सिटी में गणित का छात्र है। उसकी कोई बहन नहीं है। सब एकसाथ पेरिस के एक उपनगर में रहते हैं।

राहुल और उसका परिवार हर साल गर्मी की छुट्टियों में भारत जाते हैं। वहां उनके बहुत से रिश्तेदार रहते हैं। बहुत सारे दोस्त भी हैं। उनसे मिलना और उनके साथ समय बिताना वे खूब पसन्द करते हैं।

पिछले साल वे सब हमेशा की तरह प्लेन लेकर दिल्ली गए। उड़ान लंबी थी और उन्हें पहुंचने में बहुत समय लगा। राहुल के पिताजी काफ़ी देर सोए। मगर राहुल बिल्कुल नहीं सो पाया। उसने एक के बाद एक दो फ़िल्में देखीं। ज़रा देर एक कहानी की किताब भी पढ़ी। दूसरे मुसाफ़िरों के साथ गपशप भी की।

दिल्ली भारत की राजधानी है। बहुत बड़ा शहर है। वहां देखने लायक कई जगहें हैं : पुराने किले, मंदिर और मस्जिद, संग्रहालय वगैरह। राहुल की मां ने बाज़ार से अपने लिए ढेर सारी चीज़ें खरीदीं। उन्हें खरीदारी करने का बड़ा शौक है। राहुल के भाई ने अपने फ़्रांसीसी दोस्तों के लिए कुछ किताबें लीं। राहुल दो दफ़ा अपने पिता के साथ दिल्ली के पार्कों में घूमने गया। वहां लोग क्रिकेट खेल रहे थे। गाएं खुलेआम घास चर रही थीं। नई मेट्रो कितनी बढ़िया थी ! बहुत साफ़ थी और एकदम समय पर चलती थी। मगर वहां का मौसम बहुत गरम था।

राहुल के रिश्तेदारों ने उन्हें अपने घर बुलाया। उसके चाचा-चाची ने उसे तोहफ़े दिए। मामा-मामी ने उनका अच्छा स्वागत किया। राहुल अपने दादा-दादी से मिलकर बहुत खुश हुआ। उनके यहां उसने तरह तरह के पकवान खाए। राहुल को कुछ नए और मज़ेदार खिलौने भी मिले।

जब छुट्टियां ख़त्म हुईं राहुल बहुत दुखी हुआ। वह पेरिस लौटना नहीं चाहता था। कुछ दिन और दिल्ली में रहना चाहता था। सभी लोग उन्हें छोड़ने हवाई अड्डे आए। राहुल और उसकी मां बेचारे बहुत रोए। ☹

अगले साल राहुल फिर भारत लौटेगा। उसके माता पिता भी उसके साथ जाएंगे। वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए बहुत से तोहफ़े ले जाएंगे। गरमी से बचने के लिए पहाड़ों की सैर भी करेंगे।